



दिनांक:- 12.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



Good Morning Mahoba



महोबा पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कह लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को दूर करने का एक अच्छा माध्यम बन रहा है।



दिनांक 12.01.2021 MEDIA CELL



दिनांक:- 12.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस ने अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी/नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में दिनांक 11.01.2021 को थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर बिलरही तिराहा विक्रम की गुमटी के सामने कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा से अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ गोलू नायक पुत्र स्व प्रमोद कुमार नायक उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपरामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय 2 कारतूस जिन्दा नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 08/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त उपरोक्त को मान० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय 2 कारतूस जिन्दा नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-खाना-श्रीनगर...।

1. उ०नि० मो सुल्तान
2. का० महेश चन्द्र

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- राजेन्द्र उर्फ गोलू नायक पुत्र स्व प्रमोद कुमार नायक उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपरामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा।



दिनांक:- 12.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



स्वामी विवेकानन्द जयन्ती/राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पं० गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा बुंदेलखण्ड मैराथन-2021 का 03 वर्गों में किया गया आयोजन



आज दिनांक 12.01.2021 को चौकी क्षेत्र धर्वरा थाना अजनर के पं० गणेश प्रसाद मिश्र स्टेडियम में "स्वामी विवेकानन्द जयन्ती/राष्ट्रीय युवा दिवस" के अवसर पर "बुंदेलखण्ड मैराथन-2021" का 03 वर्गों में आयोजन किया गया। जिसमें 30 किलोमीटर (युवा मैराथन), 10 किलोमीटर (बाल मैराथन), 07 किलोमीटर (ओल्ड, वाकथान) का आयोजन किया गया। जिसमें 30प्र० सहित कई राज्यों के प्रतियोगियों ने प्रतिभाग किया। इस मैराथन में महोबा पुलिस की तरफ से महिला आरक्षी 112563165 निकिता सैनी

(नियुक्ति- न्या० सुरक्षा), आरक्षी 182561665 इन्द्रजीत यादव चौकी धर्वरा, थाना अजनर द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इसके साथ ही स्टेडियम में जिला पंचायत की तरफ से 08 लाख की लागत से तैयार ओपन जिम का उद्घाटन मा० विधायक, सादर, मा० सासंद, महोबा, जिलाधिकारी महोबा श्री सतेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, पं० गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री राकेश मिश्र की उपस्थिति में किया गया।





दिनांक:- 12.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



कबरई पुलिस ने कुर्की के दौरान बरामद अवैध कारतूस के आधार पर दर्ज किया आर्म्स एक्ट का अभियोग



आज दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे शातिर/फरार अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय के माध्यम से कुर्की करने के आदेश के क्रम में थाना कबरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 281/20 धारा 147/149/342/504/506/307/353/332/379/411/120बी भादवि व धारा 7 CLA. Act व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम में फरार चल रहे अभियुक्त राजेश पुत्र गोली सिंह उर्फ गोरे लाल सिंह

निवासी मु0 किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश धारा 82/83 crpc के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त के घर की कुर्की दौरान 05 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 16/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेश पुत्र गोली सिंह उर्फ गोरे लाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विविध कार्यवाही की गई।

कुर्की का स्थान:-

अभियुक्त का मकान मु0 किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

फरार अभियुक्त का नाम-

राजेश पुत्र गोली सिंह उर्फ गोरे लाल सिंह निवासी मु0 किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

कुर्की करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री महेंद्र सिंह तोमर
2. उ0नि0 श्री सुरेंद्र शुक्ला
3. कां0 मनीष कुमार
4. कां0 हरिओम
5. कां0 धर्मेन्द्र कुमार
6. हे0कां0 सुरेंद्र सिंह
7. म0कां0 अनुराधा तिवारी
8. हो0गा0 देवीदीन



दिनांक:- 12.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



चेकिंग अभियान के तहत पैदल गस्त करके चेक किये गये
संदिग्ध एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-
चालान

चेकिंग की गई, इसके साथ ही बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **व्यक्तियों 23 से 3000/-रु० जुर्माना व 20 ई-चालान किये गये।**



आज दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की



दिनांक:- 12.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police